

||:~>:<:~|| भूल्या मन भंवरा क्यूं फिरे, फिर रह्यो दिन और रात ||:~>:<:~||

भूल्या मन भंवरा क्यूं फिरे, फिर रह्यो दिन और रात ।

माया के भूल्या ने जमड़ा ले ज्यासी, फिर रह्यो दिन और रात ॥

गणपति हंसा छत्रपति. गया लख दोय च्यार ।

गोखा बेठ्या धरती तोलता जाता ने लागी कोनी बार ॥

किसकी छोरी और छोकरा, किसका भाई और बाप ।

भूखो आयो रीतो ही जासी, पाप पुण्य है तेरे साथ ॥

उंची चढ़कर सुरता देख ले, उघड आयो तेरो भाग ।

गाडो भर्यो लेर काठ को, फुटेडी हांडी में आग ॥

उग सोई फूल शाम कुम्हलाये , चिनेडी दिवार गिरे ।

पर जनम सोई मर ज्याए, मिनख जनम न दुबार मिले ॥

खाट नहीं रे आग बाणिया, खर्ची लेल्यो अपने साथ ।

काजी मोहम्मद बोलिया, लेखो है साहिब के हाथ ॥

जय श्री नाथ जी की.....